

ईश्वरीय  
खजाना  
टीम  
*Presents*

# विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की  
भिन्न भिन्न युक्तियाँ  
बाबा की रोज  
जैसे मीठी थपकी है  
अन्तर्मन में  
जो समा ले इसे  
जीवन में उसकी सफलता  
शत प्रतिशत पक्की है...



Films Division of Brahma Kumaris

- ◆ जो हुआ  
वह भी वाह,
- ◆ जो हो रहा है  
वह भी वाह
- ◆ जो होना है  
वह भी वाह



मैं आत्मा  
दिलाराम की  
दिलरुबा हूँ



## अव्यक्त शिक्षाएँ



बेहद के वैरागी, सदा करावनहार करा रहे हैं, इसी मस्ती में रमता योगी से भी ऊपर- उड़ता योगी होगा। जैसे हृद के हठयोग की विधियों से धरनी, आग, पानी सबसे ऊँचा आसनधारी दिखाते हैं। उसको योग के सिद्धि स्वरूप मानते हैं। वह है अल्पकाल के हठयोग की विधि की सिद्धि। ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति वाले इस विधि द्वारा देह भान की धरनी से ऊपर, माया के भिन्न-भिन्न विकारों की अग्नि से ऊपर, भिन्न-भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा संग के बहाव में आने से न्यारे बन जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपना बना देता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे किसी भी प्रकार के अल्पकाल के बहाव अपने तरफ आकर्षित न करें। ऐसे पानी के बहाव से भी ऊपर, इसको कहा जाता- 'उड़ता योगी'। यह सब सिद्धियाँ बेहद के वैराग की विधि से प्राप्त होती है।



जिसपर भगवान की नजर है  
उसे दुनिया की नजर नहीं  
लगती





सम्पूर्णता की ओर

साइलेन्स अर्थात् शान्त स्वरूप  
आत्मा, जब एकान्त में रहती है  
तब मन बुद्धि की एकाग्रता का  
अनुभव होता है, उसी एकाग्रता  
से विशेष दो शक्तियां प्राप्त  
होती हैं - एक परखने की और  
दूसरी निर्णय करने की यही दो  
विशेष शक्तियां व्यवहार और  
परमार्थ दोनों की सर्व  
समस्याओं को हल कर देती है,  
इससे सहज ही डबल लाइट  
फरिश्ता स्थिति बन जाती है।





कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है? तो क्या कहेंगे? परमात्म बाप तो हमारे साथ ही है। हम उनके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फ़लक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी हैं ना! हैं अनुभवी? क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा! बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं।



# परमात्म याद से फायदे

- ✱ याद से आत्मा सतोप्रधान बन जाती है।
- ✱ याद से ६३ जन्मों के विकर्म विनाश हो जाते हैं।
- ✱ याद से जन्म-जन्म के पाप भ्रम हो जाते हैं।
- ✱ याद से विकारों रुपी भूत भाग जाते हैं।
- ✱ याद से सहज ही मायाजीत बन जाते हैं।
- ✱ याद से आत्मा की कट निकल जाती है।
- ✱ याद से कर्मभोग भी चुक्ता हो जाता है।
- ✱ याद से तन्दरुस्ती मिलती है और आयु बढ़ती है।
- ✱ याद से सदा के लिए एवरहेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं।
- ✱ याद से निरोगी, कंचन काया मिलती है।
- ✱ याद से तेजस्वी शरीर मिलता और रुहानियत आती है।
- ✱ याद से देह-अभिमान टूट जाता है।
- ✱ याद से सब कलह-क्लेश मिट जाते हैं।
- ✱ याद से काँटों से खुशबूदार गुल-गुल (फूल) बन जाते हैं।
- ✱ याद से खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में चले जाते हैं।
- ✱ याद से बेड़ा पार हो जाता है।
- ✱ याद से ममत्व और सारी पुरानी आदतें मिट जाती हैं।
- ✱ याद से कर्मेन्द्रिय-जीत बन जायेंगे।
- ✱ याद से अंग-अंग शीतल हो जाते हैं।
- ✱ याद से चलन रॉयल हो जाती है।
- ✱ याद से संस्कारों का परिवर्तन हो जाता है।
- ✱ याद से बुद्धि सोने के बर्तन समान स्वच्छ बन जाता है।
- ✱ याद से ही दिव्यगुणों की धारणा सहज हो जाती है।
- ✱ याद से आत्मा रुपी बैटरी चार्ज हो जाती है।
- ✱ याद से अपार खुशी, अतिन्द्रिय सुख का अनुभव होता है।
- ✱ याद से बेहद की वृत्ति, कल्याणमय वृत्ति बन जाती है।
- ✱ याद से मन और बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं।
- ✱ याद से अशरीरी, देही-अभिमानी बन जाते हैं।
- ✱ याद से निर्बन्धन, निर्विघ्न और निर्भय बन जाते हैं।
- ✱ याद से काल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
- ✱ याद से आत्मा में जौहर भरता और वाणी में ताकत आती है।
- ✱ याद में रह समझाने से तीर दिल में लगता है।
- ✱ याद से अच्छे ज्ञानी रपीकर बन जाते हैं।
- ✱ याद से सेवा अच्छी होती और सफलता मिलती है।
- ✱ याद से राजाई का तिलक मिलता है।
- ✱ याद से बेगर-टू-प्रिन्स बन जाते हैं।
- ✱ याद से लक्ष्मी नारायण को वरने योग्य बन जाते हैं।
- ✱ याद से भगवान भगवती का ऊँच पद मिलता है।
- ✱ याद से सबके साथ लव बढ़ता है, आत्मा लवली बन जाती है।
- ✱ याद से सर्व श्रेष्ठ मनोकामनायें पूर्ण हो जाते हैं।
- ✱ याद से डबल लाईट बन डबल सिरताज बन जाते हैं।
- ✱ याद से उपराम हो उड़ती कला में चले जाते हैं।
- ✱ याद से एलर्ट और एक्ज्यूरेट बन जाते हैं।
- ✱ याद से सर्वशक्तिवान और निद्राजीत बन जाते हैं।
- ✱ याद से सर्व खजानों से सम्पन्न हो सन्तुष्टमणि बन जाते हैं।
- ✱ याद से सदा के लिए प्रफुल्लता आ जाती है।
- ✱ याद से दुःखहर्ता, सुखहर्ता बन जाते हैं।
- ✱ याद से समझदार और अच्छे राजयोगी बन जाते हैं।
- ✱ याद से कमाई होती है, पदमापदम भाग्यशाली बन जाते हैं।
- ✱ याद से रुहानी मस्ती चढ़ती है, मुक्ति-जीवनमुक्ति पा सकते हैं।
- ✱ याद से आत्मा को ताकत अर्थात् शक्ति मिलती है।
- ✱ याद से मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं।
- ✱ याद से बल से विश्व पर जीत पा सकते हैं।
- ✱ याद से सारे विश्व पर राज कर सकते हैं।
- ✱ याद से ही सच्ची शान्ति मिलती है।
- ✱ याद से विश्व में शान्ति स्थापन होती है।
- ✱ याद से ही स्व सहित सारा विश्व पवित्र बन जाता है।
- ✱ याद से हेल का हेविन बना सकते हैं।
- ✱ याद से दृष्टि पवित्र बन जाती है।
- ✱ याद से बाप की नजरों से निहाल हो जाते हैं।
- ✱ याद से वायुमण्डल शुद्ध होता है।
- ✱ याद से वायुमण्डल शक्तिशाली बनता है।
- ✱ याद से ऊजाई हुई आत्मा प्रज्वलित हो जाती है।
- ✱ याद से मित्र सम्बन्धी सब कुछ सहज ही भूल जाते हैं।
- ✱ याद से याद मिलती है, प्रभू प्यार की कशिश होती है।
- ✱ याद से करेन्ट मिलती है, सर्चलाईट मिलती है।
- ✱ याद से बाप से सर्व सम्बन्ध जुट जाते हैं।
- ✱ याद से आत्मा को पंख लग जाते हैं।
- ✱ याद से आत्मा पावन बन उड़ने लग जाती है।
- ✱ याद से न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर सकते हैं।
- ✱ याद से बाप की माला का दाना बन सकते हैं।
- ✱ याद से फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं।
- ✱ याद से अन्तर्मुखी बन जाते हैं।
- ✱ याद से अन्त मति सो गति अच्छी हो जाती है।
- ✱ याद से तुम बच्चों का श्रृंगार होता है।
- ✱ याद में कोई खर्चा नहीं लगता है।





You are a joyful soul who  
sustains a peaceful life by  
letting go, being light, and  
making others light too.



BRAHMA KUMARIS  
SpARC Wing







## **Brahma Kumaris Websites**

Main BK website [www.shivbabas.org](http://www.shivbabas.org) OR  
[www.brahmakumari.org](http://www.brahmakumari.org) (by SBS team)

Int'l website: [www.brahmakumaris.org](http://www.brahmakumaris.org)

India website: [www.brahmakumaris.com](http://www.brahmakumaris.com)

BK Sustenance website:  
[www.bksustenance.net](http://www.bksustenance.net)

All Data hosted on [www.bkdrluhar.com](http://www.bkdrluhar.com)

Murli Websites: [babamurli.net](http://babamurli.net)  
and [madhubanmurli.org](http://madhubanmurli.org)

[www.omshantimusic.net](http://www.omshantimusic.net)

[www.bkgoogle.org](http://www.bkgoogle.org)

[www.bksewa.org](http://www.bksewa.org)

[www.bkinfo.in](http://www.bkinfo.in)

[www.bk.ooo](http://www.bk.ooo)

[www.brahmakumari.org/centres](http://www.brahmakumari.org/centres)

NEW

[www.IshvariyaKhajana.BKhq.org](http://www.IshvariyaKhajana.BKhq.org)